

त्रनित्र ऐप 2.0

चर्चा में क्यों?

हाल ही में यूपी पुलिस ने अपराध की रोकथाम और जाँच के लिये डजिटल प्लेटफॉर्म **त्रनित्र ऐप 2.0** को अपनाया है।

मुख्य बढि:

- त्रनित्र के डेटाबेस में अब **9.32 लाख से अधिक आपराधिक रिकॉर्ड डजिटल हो गए हैं**, फ्रंटलाइन अधिकारियों के पास सुरक्षा जाँच के दौरान संदिग्धों की तेज़ी से पहचान करने की क्षमता होगी।
- इसका उपयोग इंस्पेक्टर और उससे ऊपर रैंक के सभी पुलिस कर्मी आवश्यकतानुसार कर सकते हैं।
 - पुलिस कर्मी अपराध से संबंधित व्यापक जानकारी इनपुट और एक्सेस कर सकते हैं, जिसमें **अपराध इतिहास, एफआईआर वविरण, पूछताछ रिपोर्ट, ऑडियो रिकॉर्डिंग, तस्वीरें, पुरस्कार, कारावास वविरण एवं ज़बती रिकॉर्ड** शामिल हैं।
 - यह चेहरे की पहचान क्षमताओं के साथ कानून प्रवर्तन को सशक्त बनाता है, जिससे फोटोग्राफिक डेटा के आधार पर संदिग्धों की त्वरति पहचान संभव हो पाती है।
- **क्राइम GPT सुवधि जाँच प्रक्रियाओं** को सुव्यवस्थति करते हुए अपराधियों और आपराधिक गतिविधियों के बारे में व्यापक जानकारी तक त्वरति पहुँच सक्षम बनाती है।
- त्रनित्र 2.0 फोटो लकिगि और चेहरे की पहचान तकनीक के माध्यम से लापता व्यक्तियों की खोज की सुवधि भी प्रदान करता है, जिससे लापता व्यक्तियों का पता लगाने एवं उनके परिवारों के साथ पुनर्मलिन के प्रयासों को बल मलिता है।